

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 फरवरी 2018—माघ 14, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2018

फा.क्र. 476,517-2018-इक्कीस-ब(दो),-राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 27-कोलारस एवं 34 मुंगावली विधान सभा उपचुनाव 2018 सेक्टर/जोनल अधिकारियों की संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को उपचुनाव निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

विधानसभा 034 मुंगावली

सं. क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम, पदनाम एवं विभाग	सेक्टर क्रमांक एवं नाम	मतदान केन्द्र का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक	भवन जिसमें मतदान केन्द्र स्थापित किया जाएगा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री नवीन तिवारी (सी.ई.ओ) जनपद पंचायत चंदेरी मो.नं. 9990338190	डोंगर 01	डोंगर डोंगर वैधाई ललोई खिरकाटांका सूरैल नीमखेड़ा मजरा	5 6 7 3 4 1 2	शा.प्रा.शाला भवन, डोंगर पंचायत भवन, डोंगर शा.प्रा.शाला भवन, बैधाई शा.प्रा.शाला भवन, ललोई शा.प्रा.शाला भवन, खिरकाटांका नवीन शा.प्रा.शाला भवन, सूरैल नवीन प्रा.शा.भवन नीमखेड़ा मजरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	श्री बी.के. आर्य प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अशोकनगर मो.नं. 9893394815	अमरोद 02	भरियाखेड़ी अमरोद खानपुर कुकरेठ पिपरेसरा भटोली	8 9 10 11 12 13	न.बहुउदेशीय शा.मा. शालाभवन भरियाखेड़ी शा.प्रा. शाला भवन अमरोद शा.प्रा.वि. खानपुर शा.प्रा. शाला भवन कुकरेठ शा. शाला भवन पिपरेसरा शा. शाला भवन भटोली
3.	श्री एस.के. पाठक अनुविभागीय अधिकारी फॉरैस्ट अशोकनगर मो.नं. 7828719373	तारई 03	मोहरी बेसरा तारई भीकली सलोना धमरासा	17 16 14 15 18 19	शा. शाला भवन मोहरी शा. शाला भवन बेसरा शा.मा. शाला भवन तारई (थूवोन) शा.प्रा. शाला भवन भीकली शा.मा. शाला भवन सलोना शा. शाला भवन धमरासा
4.	श्री ए.के. पटेल संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. अशोकनगर मो.नं. 9893678721	सुरैल 04	थूवोन थूवोन बरोदिया भाडरी पिपरोद नयाखेड़ा गोरासेहराई	21 20 22 23 24 25 26	शा.मा. शाला भवन थूवोन शा.मा. शाला भवन कमरा न.1 थूवोन शा.मा.वि. बरोदिया शा.प्रा. शाला भवन भाण्डरी शा.प्रा.वि. पिपरोद शा.प्रा. शाला भवन नयाखेड़ा शा.प्रा. शाला भवन गोरासेहराई
5.	श्री डी.आर.तोमर परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. अशोकनगर मो.नं. 9425133022	जारसल 05	नावनी नावनी कुरवांस जारसल मजरा चक्क जारसाल छपरा चक छपरा	32 33 34 35 36 30 31	शा.प्रा. शाला भवन नावनी शा.मा. शाला भवन नावनी शा.प्रा.वि. कुरवांसा ग्राम पंचायत भवन जारसल शा.प्रा.वि. चक्कजारसाल शा. शाला भवन छपरा शा.प्रा.वि. शाला चक छपरा
6.	श्री के.वी. श्रीवास्तव सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. अशोकनगर मो.नं. 9425405096	गोरा सेहराई 06	हलनपुर सिंहपुरचाल्दा रामनगर डुंगासरा चकेरी	27 28 29 37 38	शा.प्रा.वि. हलनपुर शा.प्रा. शाला भवन सिंहपुरचाल्दा शा.प्रा. शाला भवन रामनगर शा.प्रा. शाला भवन डुंगासरा शा.प्रा.वि. शाला भवन चकेरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	श्री एस.के. भार्गव सहायक सांख्यिकी अधिकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग अशोकनगर मो.नं. 9425380961	सेहराई 07	चिरोली	61	शा.मा.वि. भवन चिरोली
			पंचमउआ	62	शा.प्रा.वि. भवन पंचमउआ
			सेहराई	74	शा.उ.मा.वि. सेहराई
			सेहराई	75	शा.प्रा.वि. कन्या सेहराई
			सेहराई	76	शा.मा.वि. सेहराई
			अरोन	58	शा.प्रा. शाला भवन अरोन
			अरोन	59	पंचायत भवन अरोन
		मीठाखेंडा	60	शा.प्रा. शाला भवन मीठाखेंडा	
8.	श्री एस.के. बेहरे सहायक प्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई-2 अशोकनगर मो.नं. 9425193482	खोरीवरी 08	सिलवारा कंला	80	शा.प्रा.वि. सिलवारा कंला
			कैनवारा	81	शा.मा.विद्यालय कैनवारा
			बामोरी चंदेरी	55	शा.प्रा. शाला भवन बामोरी चंदेरी
			पाण्डरी चंदेरी	56	शा.नवीन.प्रा.शाला भवन पाण्डरी सेहराई
			अचलगढ़	78	शा.मा.वि. (पूर्वभाग) अचलगढ़
			अचलगढ़	79	शा.मा.वि. (पभाग) अचलगढ़
9.	श्री संजय दुबे सहायक प्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई-2 अशोकनगर मो.नं. 9827016898	गरेंठी 09	नानोन	39	शा.प्रा. शाला भवन कक्ष क्रमांक 01
			नानोन	40	शा.प्रा. शाला भवन कक्ष क्रमांक 02
			जमाखेड़ी	41	नवनिर्मित भवन राजीव गाँधी शिक्ष. मिशन के अति.कक्ष
			गरेंठी	42	शा.मा. शाला भवन गरेंठी
			लिधोराकला	43	शा.प्रा. शाला भवन लिधोराकला
			आकेत	44	शा.प्रा. शाला भवन आकेत
			देरासा	52	शा.प्रा. शाला भवन देरासा
			खिरिया	53	शा.प्रा. शाला भवन खिरिया
			कैथन	54	शा.प्रा. शाला भवन कैथन
			मढ़ी चंदेरी	57	शा.प्रा. शाला मढ़ी चंदेरी
10.	श्री एच.एल. पाण्डोरिया सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अशोकनगर मो.नं. 9425140704	रेंहटबास 10	रेंहटबास	50	शा.प्रा. शाला भवन रेंहटबास
			मूडराकला	51	शा.प्रा.वि. मूडराकला
			बक्सनपुर	45	शा. शाला भवन बक्सनपुर
			देसाईखेड़ा	46	शा.प्रा.वि. देसाईखेड़ा
			खैराई	47	शा.प्रा. शाला भवन खैराई
			मक्तनखेड़ी	48	शा.प्रा.वि. मक्तनखेड़ी
			सीगोन	49	शा.मा.वि. सीगोन
			खुजराई	163	पंचायत भवन खुजराई
			रतवास	164	शा.प्रा.वि. रतवास

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	श्री के.एस. यादव उप यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अशोकनगर मो.नं. 9425767809	बमूरिया 11	मूडराबहादरा	165	शा.मा.वि. भवन
			सेमरीटंकी	166	शा.मा.वि. अति.कक्ष
			मलावनी	167	शा.प्रा.वि. शाला भवन मलावनी
			बिजलीपुर	168	शा.प्रा.वि. बिजलीपुर
			बमूरिया	170	शा.मा. शाला भवन
			छेवलाई	171	शा.प्रा. शाला भवन अति. कक्ष
			बर्वा	172	शा.प्रा. शाला भवन बर्वा
			पिपरिया	173	शा.प्रा. शाला भवन पिपरिया
12.	श्री एम.पी.शर्मा सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अशोकनगर मो.नं. 9405408560	अथाईखेड़ा 12	अथाईखेड़ा	191	शा.प्रा. शाला भवन अथाईखेड़ा
			अथाईखेड़ा	192	शा.मा. शाला भवन अथाईखेड़ा
			अथाईखेड़ा	193	शा.प्रा. शाला भवन अथाईखेड़ा
			ढेकन	194	पंचायत भवन ढेकन
			करैयातुर्क	195	नवीन प्रा. शाला भवन करैयातुर्क
			केशलोन	196	नवीन प्रा. शाला भवन केशलोन
			चमराई	197	शा.प्रा. शाला भवन चमराई
			मूडराखाना	198	शा.प्रा. शाला भवन मूडराखाना
13.	श्री के.पी. बाँधम सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अशोकनगर मो.नं. 9961096199	बेलई 13	बेलई	199	नवीन प्रा. शाला भवन बेलई
			बरखेडाअथाई	200	शा.प्रा. शाला भवन बरखेडाअथाई
			बीलाखेड़ा	201	नवीन प्रा.वि. भवन बीलाखेड़ा
			खाकलोन	202	शा.प्रा.वि. खाकलोन
			बीलाखेड़ी	203	शा.प्रा.विद्यालय भवन
14.	श्री विनय कुमार भट्ट सी.एम.ओ. ईसागढ़ मो.नं. 9009090604	दमदमा 14	जसैया	204	सिचाई विभाग का विश्रामगृह जसैया
			पीपलखेड़ा	205	नवीन वैकल्पिक शाला भवन पीपलखेड़ा
			जमुनिया	206	प्रा.वि. जमुनिया
			कानीखेड़ी	207	शा.प्रा. शाला भवन कानीखेड़ी
			टीटोर	208	शा.प्रा.वि. टीटोर
			दमदमा	209	आंगनबाड़ी केन्द्र दमदमा
			पाटन	210	शा.प्रा.वि. पाटन
15.	श्री सतीश दुबे सहायक प्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकारण क्रियान्वयन इकाई-1 अशोकनगर मो.नं. 9425024835	सिघाडा 15	सिघाडा	174	शा.प्रा. शाला भवन सिघाडा
			ढोडिया	175	नवीन प्रा. शाला भवन ढोडिया
			सेमरीपिपरई	187	शा.प्रा. शाला भवन सेमरीपिपरई
			रूसल्ला	188	शा.प्रा. शाला भवन रूसल्ला
			फुलैदी	189	शा.प्रा. शाला भवन फुलैदी
			सागर	190	शा.प्रा. शाला भवन सागर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव सहायक प्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई-1 अशोकनगर मो.नं. 7049236471	तमासा 16	तमासा तमासा कर केशोपुर सिलावन चिरवासा खोक्सी छेवला	176 177 158 162 169 160 159 161	शा.प्रा.वि. तमासा शा.प्रा.वि. तमासा चक्क शा.मा. शाला भवन कर शा.प्रा. शाला भवन केशोपुर शा.प्रा.वि. शाला भवन सिलावन शा.प्रा. शाला भवन चिरावासा शा.प्रा. शाला भवन खोक्सी नवीन शा. शाला भवन छेवला
17.	श्री एस.के. खरे महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई-1 अशोकनगर मो.नं. 9425304941	पिपरई 17	पिपरई पिपरई पिपरई पिपरई पिपरई पिपरई पिपरई	85 86 87 88 89 90 91 92	शा.मा.वि. कमरा न 05 पिपरई शा.बालक प्रा.वि.अति.कक्ष क्रमांक 01 शा.बालक प्रा.वि.अति.कक्ष क्रमांक 02 शा.मा.वि.पश्चिम की ओर कमरा न.03 पिपरई शा.बा.प्रा.वि.पिपरई नवीन हाई स्कूल पिपरई शा.मा. कन्या.वि.पश्चिमी भाग पिपरई शा.मा.वि.पश्चिम की ओर कमरा न.03
18.	श्री चंदन सिंह रघुवंशी सहायक यंत्री जनपद पंचायत अशोकनगर मो.नं. 9826223278	बरखेड़ा पिपरई 18	बरखेड़ा पिपरई गढ़ला बांसखेड़ी प्यासी मुडरी खोरीबरी	93 94 157 82 83 84	नवीन शाला भवन बरखेड़ा पिपरई शा.प्रा.शा. भवन अति.कक्ष गढ़ला ग्राम पंचायत भवन बांसखेड़ी शा.प्रा.वि. प्यासी शा.प्रा.वि. मूडरी शा.प्रा.वि. खोरीबरी
19.	श्री राजेश नीखरा उप यंत्री जनपद पंचायत अशोकनगर मो.नं. 7898889406	जनकपुर 19	ढिमचौली अमनचार पठारी जनकपुरखिरिया वम्मन खिरिया कारातला पारकना पारकना	98 70 71 72 73 77 95 96	शा.प्रा.वि. ढिमचौली शा.प्रा.वि. अमनचार शा.प्रा.वि. प0 भाग पठारी शा.प्रा.वि. जनकपुरखिरिया शा.प्रा.वि. वम्मन खिरिया शा.प्रा.वि. भवन कारातला शा.प्रा. शाला भवन पारकना शा.मा. शाला भवन पारकना
20.	श्री बी.एस. बसुनिया जिला सांख्यकी अधिकारी अशोकनगर मो.नं. 9754491131	डोंगरा 20	गुढ़टांका देवरछी बामोरीटांका सोनाखेड़ी डोंगरा करांटांका	63 64 65 67 68 69	शा.प्रा.वि. अति. कक्ष शा.मा.वि. देवरछी प्रा.वि. बामोरीटांका शा.प्रा.वि. सोनाखेड़ी शा.मा.वि. डोंगरा प्रा.वि. करांटांका

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	श्री डी.पी.गोलिया उप यंत्री कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर मो.नं. 9425798247	किरोला 21	मदऊखेड़ी	108	शा.प्रा.वि. अति. कक्ष उत्तरी भाग
			मदऊखेड़ी	109	शा.प्रा.वि. अति. कक्ष परिचमी भाग
			मर्दनखेड़ी	110	शा.प्रा.वि. मर्दनखेड़ी
			किरोला	111	नवनिर्मित शाला भवन किरोला
			बरखाना	66	शा.मा.वि. बरखाना
			भोपाल	122	शा.मा.वि. भोपाल
			सेमरखेड़ी	124	शा.प्रा.वि. सेमरखेड़ी
22.	श्री शुएव हुसेन मिर्जा उप यंत्री कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर मो.नं. 9406973754	झागर 22	विजोरी	105	प्रा. शाला भवन विजोरी
			हिन्नादा	106	प्रा.विद्यालय, हिन्नादा
			रिछा	107	शा.प्रा.वि. रिछा
			झागर	112	शा.प्रा.वि. झागर
			वरवाह	113	शा.प्रा. शाला भवन वरवाह
			मूडरा मुंगावली	116	शा.प्रा.वि. मूडरामुंगावली
23.	श्री वीरेन्द्र कुमार शाक्य सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर मो.नं. 9753309965	साजनमऊ कलां 23	सिहोरा	97	शा.प्रा.वि. सिहोरा
			अस्पतखेड़ी	102	शा.प्रा.वि. भवन अस्पतखेड़ी
			साजनमऊकला	103	प्रा. वि. शाला भवन साजनमऊकला
			सोनाई	104	शा.प्रा.वि. सोनाई
			रुहाना	99	शा.प्रा.वि. रुहाना
			चिन्कूपुर	115	शा.प्रा.वि. भवन चिन्कूपुर
			भारतपुरा	117	शासकीय प्रा. शाला भवन भारतपुरा
सेहपुरा	114	शा.प्रा.वि. सेहपुरा			
24.	श्री अनिल कुमार जैन उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर मो.नं. 9425354245	हुरेरी 24	महुआखाड़ी	120	शा.प्रा.वि. महुआखाड़ी
			रतमानपुर	121	शा. शाला भवन रतमानपुर
			लुहारी	123	प्रा. विद्यालय, लुहारी
			हुरेरी	125	शा.प्रा.वि. हुरेरी
			निर्टर	126	शा. शाला भवन निर्टर
			बाढोली	127	नवीन पंचायत भवन बाढोली
25.	श्री विशाल सिंह अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अशोकनगर मो. नं. 8109448034	मुंगावली 25	मुंगावली	132	शा.क.उ.मा.वि. उत्तरी भाग
			मुंगावली	133	टी.ए.बी. हाईस्कूल मुंगावली
			मुंगावली	134	शा. कन्या उ.मा.वि. का दक्षिणी भाग
			मुंगावली	144	सरस्वती शिशु मंदिर नया भवन कमरा नं.-1 मुंगावली
			मुंगावली	145	सरस्वती शिशु मंदिर नया भवन कमरा नं.-2 मुंगावली
			मुंगावली	135	महाबीर हाई स्कूल पूर्व भाग मुंगावली
			मुंगावली	136	महाबीर हाई स्कूल पश्चिमी भाग मुंगावली
			मीरकाबाद	119	शा.प्रा.वि. भवन तुलसी कालोनी मीरकाबाद
			मुंगावली	142	महावीर हाई स्कूल उत्तरी भाग मुंगावली
			मुंगावली	141	मंडी कमेटी कार्यालय मुंगावली
मुंगावली	143	मंडी कमेटी का विश्रामगृह मुंगावली			
मुंगावली	146	नपा. यात्री विश्रामगृह का भवन मुंगावली			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	श्री एस. पी. आर्य महाप्रबंधक म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई-2 अशोकनगर मो.नं. 9425148843	मुंगावली 26	मुंगावली	137	शा.बा.प्रा.शा.काछीपुरा मुंगावली (उत्तर भाग)
			मुंगावली	138	पं. कन्हैयालाल मेमोरियल स्कूल प्रायवेटन भवन मुंगावली
			मुंगावली	139	शा.बा.प्रा. शाला, काछीपुरा (दक्षिण भाग) मुंगावली.
			मुंगावली	140	कृष्णा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मुंगावली
			मुंगावली	153	शा.प्रा.वि. मल्हारगढ़ रोड
			मुंगावली	147	शा.मि.स्कूल कमरा नं.-1 मुंगावली
			मुंगावली	148	शा.मि.स्कूल कमरा नं.-2 मुंगावली
			मुंगावली	149	शा.मि.स्कूल कमरा नं.-3 मुंगावली
			मुंगावली	150	पुरानी जेल बिल्डिंग दक्षिणी भाग कमरा नं. 01
			मुंगावली	151	पुरानी जेल बिल्डिंग उत्तरी भाग कमरा नं. 02
			मुंगावली	152	बी.आर.सी. भवन मध्य भाग मुंगावली
			दुडेर	129	शा.प्रा.वि. दुडेर
			चक चुडामन	130	शा.प्रा.वि. भवन चक चुडामन
27.	श्री अजय जैन सहायक यंत्री लो. स्वा. यां. मुंगावली मो. नं.	तारई 27	बरखेडाडांग	154	शा.प्रा.वि. बरखेडाडांग
			तारई	155	नवीन शाला भवन तारई
			छितरी	156	शा.प्रा.शाला भवन अति. कक्ष
			बामोरी	100	शा.प्रा.वि. वामोरी
			बीड सरकार	101	प्रा. विद्यालय बीड सरकार
			सरदारपुर	131	शा.प्रा.वि. सरदारपुर
			गुन्हेरु	118	शा.प्रा.शाला भवन अति. कक्ष
28.	श्री आर. एस. श्रीवास्तव उप यंत्री, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर मो. नं. 9826221918	नादनखेडी 28	बंधी	178	प्रा.वि.बंधी
			टीला	179	शा.प्रा.शाला भवन टीला
			नादनखेडी	180	शा. नवीन प्रा. शा. शाला भवन नादनखेडी
			जाखलोन	181	शा.प्रा.वि. भवन जाखलोन
			जतोली	182	शा.शाला भवन जतोली
			बरखेडाकाछी	183	शा.प्रा.वि. बरखेडाकाछी
			खैरौदाचक	184	शा.प्रा.शा. भवन खैरौदा चक
			जारोलोबुजुर्ग	185	शा.प्रा.वि. पुरानी शाला भवन
			29.	श्री के. एन. शर्मा उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर मो.नं. 9425760624	कुकावली 29
झागरवमूरिया	214	शा.प्रा.वि. भवन झागरवमूरिया			
कुकावली	215	शा.प्रा.शाला भवन कुकावली			
खैरखाडी	238	शा.प्रा.शाला भवन खैरखाडी			
सुमेर	231	शा. शाला भवन सुमेर			
कुम्हरा	216	प्रा. वि. भवन कुम्हरा			
गदूली	217	नवीन शा.प्रा.वि. गदूली			
मढीखुर्द	218	शा.प्रा.वि. मुढीखुर्द			
मतावली	219	शा.मा.वि. मतावली			
30.	श्री आर. के. सिंघाई उपयंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर मो.नं. 9131099574	जारोली धुवयाई 30			
			मथाना	212	शा.प्रा.वि. शाला भवन मथाना
			अगोदा	213	शा. पंचायत भवन अगोदा
			जारोलीधुवयाई	239	नवीन पंचायत भवन जारोलीधुवयाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			बनहाई	240	शा.प्रा.शाला भवन बन्हाई
			गुपलिया	241	शा.प्रा. शा. भवन गुपलिया
31.	श्री एस. एन. विरथरे उपयंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर मो.नं. 9406579504	बहादुरपुर 31	ईकोदिया	252	शा.मा.वि. अति. कक्ष
			बहादुरपुर	232	नवीन हाई स्कूल भवन उत्तरीभाग बहादुरपुर
			बहादुरपुर	233	शा. नवीन हाईस्कूल भवन का दक्षिणी भाग बहादुरपुर.
			बहादुरपुर	234	शा. बहु. उददे. भवन बहादुरपुर
			गीलारोपा	237	प्रा.वि. भवन गीलारोपा
			बरखेडाजमाल	242	शा.प्रा.शा. भवन बरखेडा जमाल
			बरखेडाजमाल	243	शा.प्रा.विद्यालय भवन बंगला चौराहा
			प्यासी	253	शा.प्रा. शाला भवन प्यासी
32.	श्री एस. के. जाटव कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मो. नं. 9993002099	ओडेर 32	अतरेजी	254	शा. नवीन प्रा. शा. भवन अतरेजी
			घाटबमूरिया	255	शा.मा.शाला. भवन घाटबमूरिया
			ओडेर	244	शा.मा.शा. भवन ओडेर
			ओडेर	245	शा.प्रा.वि. भवन ओडेर
			गोरा	446	शा.प्रा.शाला भवन गोरा
			गोरा चक्क	447	शा.प्रा.वि. भवन गोराचक्क
33.	श्री विश्वनाथ सिंह मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चंदेरी मो. नं. 7354510421	बाबरोद 33	लप्तौरा	256	नवनिर्मित शाला भवन लप्तौरा
			म्याना	257	शा.प्रा.वि. म्याना
			बरखेडा भोगी	258	प्रा.वि. भवन बरखेडा भोगी
			टांडा	259	शा.प्रा.वि. टांडा
			बाबरोद	248	शा.प्रा.शाला भवन बाबरोद
			सिरसौरा	250	शा.प्रा.शाला भवन सिरसौरा
			चक सौसायटी	249	शा.प्रा.वि. भवन चक सौसायटी
			मलउखेड़ी	251	शा. बहुउद्देशीय भवन
34.	श्री बी. के. बंसल सहायक प्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क, विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई-2, अशोकनगर मो. नं. 9425328823	बर्ी 34	भैसोनकलां	226	शा.शाला भवन भैसोनकलां
			खजुरिया	227	शा.प्रा.वि. खजुरिया
			नरखेड़ा	228	शा.प्रा.शाला भवन नरखेड़ा
			बर्ी	229	शा.प्रा.वि. बर्ी
			खोपरा	230	शा.मा.शाला भवन नया कमरा न. 3 खोपरा
			सोपरा	236	शा. नवीन प्रा. शाला भवन सोपरा
			जशनखेड़ी	235	शा. प्रा. वि. जशनखेड़ी
35.	श्री आनंद कुमार जैन उपयंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर मो. नं. 9406967355	बामोरी खुटिया 35	ढिचरी	128	शा.प्रा. शाला भवन ढिचरी
			बामोरीखुटिया	220	शा.प्रा.भवन बामोरीखुटिया
			कांकर	221	शा.प्रा.वि. कांकर
			सांवलहेडा	222	शा.प्रा.शाला सांवलहेडा
			भेडका	223	शा.प्रा.वि. भेडका
			बिल्हेरू	224	शा. शाला भवन बिल्हेरू
			बिल्हेरू	225	शा. पंचायत भवन बिल्हेरू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	श्री आर. के. चौरसिया उपयंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर मो. नं. 9406588703	मल्हारगढ़ 36	पिपरिया मल्हारगढ़ मूडरा मल्हारगढ़ मल्हारगढ़ मल्हारगढ़ मल्हारगढ़	260 261 262 263 264	शा.प्रा.शाला भवन पिपरिया मल्हारगढ़ शा.प्रा.वि. मल्हारगढ़ शा.मा.वि. मल्हारगढ़ शा. हाईस्कूल मल्हारगढ़ शा. बालक प्रा. वि. मल्हारगढ़
1.	श्री एस.के.एस.रघुवंशी उपयंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर मो. नं. 9406569325		रिजर्व		
2.	श्री हरिसिंह रघुवंशी उपयंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर मो. नं. 7697126112		रिजर्व		
3.	श्री अनिल कुमार रघुवंशी उपयंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर मो. नं. 9755623994.		रिजर्व		
4.	श्री एस. के. शाक्यवार सहायक संचालक जिला हथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र चंदेरी मो. नं. 9425408531.		रिजर्व		
5.	डॉ. अलोक कुमार निगम सहायक प्राध्यापक शा. नेहरू महाविद्यालय अशोकनगर मो. नं. 9826614793.		रिजर्व		
6.	श्री केदार सिंह गर्ग प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अशोकनगर मो. नं. 9407442591.		रिजर्व		
7.	श्री देवेन्द्र सिंह जादौन सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, चंदेरी मो. नं. 9826296448.		रिजर्व		